

कृषि कुंभ
हिंदी मासिक पत्रिका

खण्ड 04 भाग 02, (जुलाई, 2024)
पृष्ठ संख्या 42-45

एकीकृत कृषि प्रणाली के माध्यम से बढ़ायें आय का स्रोत



पीयूष यादव¹, राजीव कुमार सिंह², डॉ. रूपेश सिंह³,
ओम प्रकाश⁴ एवं संदीप कुमार यादव⁵

^{1,4,5}परास्नातक छात्र (एम. एससी. शस्य विज्ञान),

कृषि विभाग, इन्टीग्रल विश्वविद्यालय, लखनऊ

^{2,3}एस.एम.एस., के.वी.के. जौनपुर प्रथम, भारत।

Email Id: – yadavpiyush826@gmail.com

परिचय

एकीकृत कृषि प्रणाली दुनिया भर के किसानों के लिए आशा की किरण बनकर उभरी है। आज के गतिशील कृषि परिदृश्य में, किसानों की विविध आवश्यकताओं और चुनौतियों को पूरा करने में पारंपरिक खेती के तरीके अक्सर कम पड़ जाते हैं। भोजन की लगातार बढ़ती मांग, पर्यावरणीय चिंताओं और बाजार की कीमतों में उत्तर-चढ़ाव के साथ, किसान अपनी आय को अनुकूलित करने और स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए लगातार नवीन रणनीतियों की तलाश कर रहे हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) एक समग्र दृष्टिकोण के रूप में उभरी है जो उत्पादकता को अधिकतम करने, इनपुट लागत को कम करने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कृषि गतिविधियों को एकीकृत करती है। यह लेख एकीकृत कृषि प्रणालियों की अवधारणा की पड़ताल करता है और बताता है कि वे किसानों के लिए आय के स्रोत बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कैसे काम कर सकते हैं। यह व्यापक दृष्टिकोण न केवल उत्पादकता बढ़ाता है बल्कि आय के स्रोतों में भी विविधता लाता है, जिससे

मोनोकल्चर खेती से जुड़े जोखिम कम हो जाते हैं। इस लेख में, हम एकीकृत कृषि प्रणालियों की अवधारणा पर गहराई से विचार करते हैं, कार्यान्वयन के लिए उनके लाभों और रणनीतियों की खोज करते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए कि वे किसानों के लिए आय सृजन को कैसे महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दे सकते हैं।

एकीकृत कृषि प्रणालियों को समझना

एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) कृषि उत्पादन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का प्रतीक है, जिसमें खेती के विभिन्न घटकों को सहक्रियात्मक रूप से संयोजित किया जाता है। इन घटकों में फसल की खेती, पशुधन पालन, जलीय कृषि, कृषि वानिकी और मधुमक्खी पालन जैसी विभिन्न कृषि गतिविधियों का एक साथ एकीकरण शामिल है। विभिन्न तत्वों को एकीकृत करके, किसान एक गतिशील और लचीला पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं जो संसाधन उपयोग को अधिकतम करता है और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है। आय स्रोतों में विविधता लाने और जोखिम को कम करके, आईएफएस किसानों को आर्थिक स्थिरता के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है।

एकीकृत कृषि प्रणाली के घटकः

फसल की खेतीः

फसल की खेती एकीकृत कृषि प्रणाली की रीढ़ है। किसान अनाज, सब्जियां, फल और औषधीय पौधों सहित विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती कर सकते हैं। भूमि उपयोग को अनुकूलित करने, मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने और कीट और बीमारी की घटनाओं को कम करने के लिए फसल चक्र और अंतरफसल तकनीकों को आमतौर पर नियोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, फलीदार फसलों के एकीकरण से नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद मिलती है, जिससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम हो जाती है।

पशुधन पालनः

मवेशी, मुर्गीपालन, बकरी और भेड़ सहित पशुधन पालन, एकीकृत कृषि प्रणालियों में फसल की खेती का पूरक है। पशुधन दूध, मांस, अंडे और अन्य डेयरी उत्पादों की बिक्री के माध्यम से अतिरिक्त आय के स्रोत के रूप में काम करता है। इसके अलावा, पशुधन खाद एक मूल्यवान जैविक उर्वरक के रूप में कार्य करता है, जो मिट्टी को आवश्यक पोषक तत्वों से समृद्ध करता है और फसल की पैदावार बढ़ाता है। पशुधन को एकीकृत करने से कृषि उप-उत्पादों के पुनर्चक्रण की सुविधा भी मिलती है, जिससे अपशिष्ट कम होता है और संसाधन दक्षता को बढ़ावा मिलता है।

जलकृषिः

एकवाकल्वर में तालाबों या टैकों में मछली, झींगा और अन्य जलीय जीवों की खेती शामिल है। कृषि प्रणालियों में जलीय कृषि को एकीकृत करने से न केवल आय स्रोतों में विविधता आती है बल्कि संसाधन उपयोग और जल प्रबंधन में भी वृद्धि होती है। मछली के

अपशिष्ट को एकवापोनिक्स के माध्यम से फसलों के लिए पोषक तत्व स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जिसमें मछली के अपशिष्ट का उपयोग हाइड्रोपोनिकली उगाए गए पौधों को उर्वरित करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, मछली पालन एकीकृत कीट प्रबंधन दृष्टिकोण के माध्यम से पानी की गुणवत्ता में सुधार और कृषि क्षेत्रों में कीटों और खरपतवारों को नियंत्रित करने में मदद करता है।

कृषि वानिकीः

कृषिवानिकी एक विविध और टिकाऊ कृषि प्रणाली बनाने के लिए पेड़ों की खेती को पारंपरिक कृषि पद्धतियों के साथ जोड़ती है। पेड़ मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने, पानी के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को कम करने के साथ-साथ लकड़ी, फल, चारा और ईंधन की लकड़ी जैसे कई लाभ प्रदान करते हैं। कृषि वानिकी प्रणालियाँ जैसे कि गली फसल, विंडब्रेक और सिल्वोपास्चर न केवल कृषि उत्पादकता बढ़ाते हैं बल्कि जैव विविधता संरक्षण और कार्बन पृथक्करण में भी योगदान करते हैं।

मधुमक्खी पालनः

मधुमक्खी पालन, या मधुमक्खी पालन में शहद उत्पादन, परागण सेवाओं और मोम की कटाई के लिए मधुमक्खियों का प्रबंधन शामिल है। मधुमक्खी पालन को खेती प्रणालियों में एकीकृत करने से फसल परागण बढ़ता है, जिससे पैदावार और गुणवत्ता में सुधार होता है। इसके अलावा, शहद, मोम, रॉयल जेली और प्रोपोलिस जैसे मधुमक्खी उत्पाद किसानों के लिए अतिरिक्त आय स्रोत प्रदान करते हैं। फूलों के पौधों की खेती और न्यूनतम कीटनाशकों के उपयोग सहित मधुमक्खी-अनुकूल कृषि

पद्धतियाँ, मधुमक्खी स्वास्थ्य और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देती हैं।

एकीकृत कृषि प्रणाली के लाभ

आय का विविधीकरण: एकीकृत खेती का सबसे महत्वपूर्ण लाभ आय धाराओं का विविधीकरण है। कई कृषि गतिविधियों को शामिल करके, किसान एक ही फसल या पशुधन प्रजातियों पर अपनी निर्भरता कम करते हैं। यह विविधीकरण बाजार के उतार-चढ़ाव और फसल की विफलता के खिलाफ बचाव के रूप में कार्य करता है, जिससे अधिक स्थिर आय सुनिश्चित होती है।

अनुकूलित संसाधन उपयोग: एकीकृत सिस्टम विभिन्न घटकों के बीच तालमेल का लाभ उठाते हैं, जिससे अधिक कुशल संसाधन उपयोग होता है। उदाहरण के लिए, जानवरों के अपशिष्ट का उपयोग फसलों के लिए जैविक उर्वरक के रूप में किया जा सकता है, जबकि फसल के अवशेष पशुओं के लिए चारे के रूप में काम कर सकते हैं। यह बंद-लूप दृष्टिकोण बर्बादी को कम करता है और उत्पादकता को अधिकतम करता है।

उन्नत मृदा स्वास्थ्य: एकीकृत कृषि प्रणालियों में फसल चक्र और अंतरफसल प्रथाएं मिट्टी की उर्वरता और संरचना में सुधार करने में मदद करती हैं। विभिन्न फसलों के बीच परिवर्तन करके, किसान पोषक तत्वों की कमी को रोक सकते हैं और कीटों और बीमारियों की घटनाओं को कम कर सकते हैं, जिससे अंततः उच्च पैदावार और स्वस्थ मिट्टी प्राप्त हो सकती है।

जलवायु लचीलापन: एकीकृत कृषि प्रणालियाँ अपनी विविध प्रकृति के कारण स्वाभाविक रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीली हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई विशेष फसल चरम मौसम की घटनाओं के प्रति संवेदनशील

है, तो सिस्टम के अन्य घटक अप्रभावित रह सकते हैं, जिससे किसानों के लिए निरंतर उत्पादकता और आय सुनिश्चित हो सकती है। पर्यावरणीय स्थिरता: जैव विविधता को बढ़ावा देने और सिंथेटिक इनपुट पर निर्भरता को कम करके, एकीकृत कृषि प्रणालियाँ पर्यावरण संरक्षण में योगदान करती हैं। कृषि वानिकी और जैविक खेती जैसी प्रथाएं पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने, जल संसाधनों की रक्षा करने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद करती हैं, जिससे कृषि लंबे समय में अधिक टिकाऊ हो जाती है।

एकीकृत कृषि प्रणाली लागू करने की रणनीतियाँ

व्यापक योजना: एकीकृत कृषि प्रणालियों के सफल कार्यान्वयन के लिए सावधानीपूर्वक योजना और डिजाइन की आवश्यकता होती है। किसानों को अपने खेत के लिए फसलों, पशुधन और अन्य घटकों के सबसे उपयुक्त संयोजन का निर्धारण करने के लिए अपनी भूमि, जलवायु, बाजार की मांग और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं का आकलन करना चाहिए।

ज्ञान और कौशल विकास: एकीकृत खेती में परिवर्तन के लिए नए ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है। कृषि पारिस्थितिकी, पशुपालन और टिकाऊ कृषि तकनीकों में सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानने के लिए किसान प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और क्षेत्र प्रदर्शनों में भाग ले सकते हैं।

छोटी शुरुआत करें, बड़े पैमाने पर बढ़ें: रातोंरात अपनी खेती की पद्धतियों में पूरी तरह से बदलाव करने का प्रयास करने के बजाय, किसान छोटी शुरुआत कर सकते हैं और समय के साथ धीरे-धीरे अपनी एकीकृत प्रणाली का

विस्तार कर सकते हैं। इससे उन्हें अनुभव से सीखने, जोखिमों को कम करने और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर अपने दृष्टिकोण को अनुकूलित करने की अनुमति मिलती है।

मूल्य वर्धित गतिविधियाँ: आय क्षमता को अधिकतम करने के लिए, किसान कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन जैसी मूल्य वर्धित गतिविधियों का पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अतिरिक्त फलों और सब्जियों को जैम, अचार या सूखे स्नैक्स में संसाधित किया जा सकता है, जिससे बाजार में अधिक कीमत मिलती है।

सामुदायिक जुड़ाव: अन्य किसानों, स्थानीय समुदायों और कृषि संगठनों के साथ साझेदारी बनाने से ज्ञान साझा करने और संसाधन जुटाने में मदद मिल सकती है। किसान सहकारी समितियों या समुदाय-समर्थित कृषि (सीएसए) योजनाओं जैसी सहयोगात्मक पहल प्रतिभागियों के बीच जोखिम और लाभों को अधिक समान रूप से वितरित करने में मदद कर सकती हैं।

सफल एकीकृत कृषि प्रणालियों का केस अध्ययन

पर्माकल्चर फार्म: प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र से प्रेरित पर्माकल्चर फार्म, आत्मनिर्भर खाद्य प्रणाली बनाने के लिए विविध पौधों, जानवरों और सूक्ष्मजीवों को एकीकृत करते हैं। प्रकृति के पैटर्न और प्रक्रियाओं की नकल करके, पर्माकल्चर किसान जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन को बढ़ाते हुए उच्च स्तर की उत्पादकता प्राप्त करते हैं।

एकीकृत चावल—मछली खेती: एशिया के कई हिस्सों में, किसान एकीकृत चावल—मछली खेती करते हैं, जहां बाढ़ वाले धान के खेतों में चावल की फसलों के साथ मछली पाली जाती है। मछलियाँ कीटों और खरपतवारों को खाती हैं,

जिससे रासायनिक कीटनाशकों और शाकनाशियों की आवश्यकता कम हो जाती है, जबकि उनका अपशिष्ट चावल के पौधों को उर्वरित करता है। यह सहजीवी संबंध समग्र पैदावार बढ़ाता है और किसानों के लिए प्रोटीन और आय का एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान करता है।

कृषि वानिकी प्रणालियाँ: कृषि वानिकी पेड़ों या झाड़ियों को फसलों या पशुधन के साथ जोड़ती है, जिससे मृदा संरक्षण, कार्बन पृथक्करण और बढ़ी हुई जैव विविधता जैसे कई लाभ मिलते हैं। लकड़ी, फल, या अखरोट के पेड़ों को अपनी कृषि प्रणालियों में एकीकृत करके, कृषि वानिकी व्यवसायी मिट्टी की उर्वरता और जल धारण में सुधार करते हुए लकड़ी की बिक्री या गैर-लकड़ी वन उत्पादों से अतिरिक्त आय उत्पन्न करते हैं।

निष्कर्ष

एकीकृत कृषि प्रणालियाँ आय के स्रोत बढ़ाने, पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने और कृषि में लचीलापन बढ़ाने के लिए एक व्यवहार्य मार्ग प्रदान करती हैं। विभिन्न घटकों के बीच तालमेल का उपयोग करके, किसान संसाधन उपयोग को अनुकूलित कर सकते हैं, जोखिमों को कम कर सकते हैं और आजीविका में सुधार कर सकते हैं। हालांकि, एकीकृत कृषि प्रणालियों की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए आवश्यक समर्थन, निवेश और सक्षम वातावरण प्रदान करने के लिए सरकारों, विकास एजेंसियों, अनुसंधान संस्थानों और किसान संगठनों के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। सहयोगात्मक कार्रवाई और नवाचार के माध्यम से, एकीकृत कृषि प्रणालियाँ अधिक टिकाऊ और लचीले कृषि भविष्य के निर्माण में योगदान दे सकती हैं।